

CLASS : 12th (Sr. Secondary)
Series : SS-M/2017

Code No. 2029

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

SET : B

रसायन विज्ञान

CHEMISTRY

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh Candidates)

(Evening Session)

Time allowed : 3 hours]

[Maximum Marks : 60]

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित प्रश्न 18 हैं।

Please make sure that the printed question paper contains 18 questions.

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये कोड नम्बर तथा सेट को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

The Code No. and Set on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.

- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

Don't leave blank page/pages in your answer-book.

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न करें।

Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*Before answering the question, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***

सामान्य निर्देश :

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।
- प्रश्न संख्या 1 में बारह (i - xii) बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक 1 अंक का है। जिनके सही उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखने हैं।
- प्रश्न संख्या 2 से 10 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए।
- प्रश्न संख्या 11 से 15 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए।
- प्रश्न संख्या 16 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 70 शब्दों में दीजिए।
- प्रश्न-पत्र में समग्र रूप से कोई विकल्प नहीं है। तथापि 5 अंकों वाले सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आंतरिक चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में से आपको केवल एक ही प्रश्न करना है।

General Instructions :

- All questions are compulsory.
- Marks for each question are indicated against it.
- Question Number 1 consists of twelve (i-xii) multiple choice questions carrying 1 mark each. Candidates have to write the correct answer in their answer-book.

- (iv) Question Numbers **2** to **10** are very short answer type questions of 2 marks each. Answer these in about **30** words each.
- (v) Question Numbers **11** to **15** are short answer type questions of 3 marks each. Answer these in about **40** words each.
- (vi) Question Numbers **16** to **18** are long answer type questions of 5 marks each. Answer these in about **70** words each.
- (vii) There is no over all choice. However, internal choice is given in all long answer type questions of 5 marks each. You have to attempt only **one** of the given choice in such questions.

1. (i) निम्न में कौन ठोस अवस्था में कोवेलेन्ट क्रिस्टल होता है ? 1

- (A) फास्फोरस (B) आयोडीन
 (C) सिलिकॉन (D) सल्फर

Which of the following exists as covalent crystal in solid state ?

- (A) Phosphorus (B) Iodine
 (C) Silicon (D) Sulphur

(ii) BCC व्यवस्था में खाली जगह कितने प्रतिशत है ? 1

- (A) 74% (B) 68%
 (C) 32% (D) 26%

(4)

2029/ (Set : B)

Percentage of empty space in a BCC arrangement is :

- (A) 74% (B) 68%
- (C) 32% (D) 26%

(iii) एक विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा की घुलनशीलता किस पर निर्भर नहीं करती है ?

- (A) दाब
- (B) तापमान
- (C) विलेय की प्रकृति
- (D) विलायक की प्रकृति

Maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a given amount of a liquid solvent does **not** depend upon :

- (A) Pressure
- (B) Temperature
- (C) Nature of solute
- (D) Nature of solvent

(iv) अधिक ऊँचाई पर रहने वाले लोगों के रक्त में O_2 की निम्न सान्द्रता होने का कारण है ।

- (A) निम्न ताप
- (B) निम्न वायुमण्डलीय दाब

2029/ (Set : B)

(5)

2029/ (Set : B)

(C) उच्च वायुमण्डलीय दाब

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Low concentration of O₂ in the blood of people living at high altitude is due to :

(A) Low Temperature

(B) Low Atmospheric Pressure

(C) High Atmospheric Pressure

(D) None of the above

(v) कौन-सी धातु उसके सॉल्ट के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं की जा सकती है ? 1

(A) Ca

(B) Ag

(C) Cr

(D) Cu

The metal that can**not** be obtained by electrolysis of an aqueous solution of its salt is :

(A) Ca

(B) Ag

(C) Cr

(D) Cu

(vi) संक्षारण एक मिश्रण है : 1

(A) Fe₂O₃

(B) Fe₂O₃ तथा Fe(OH)₃

(C) FeO तथा Fe(OH)₃

(D) Fe₃O₄ तथा Fe(OH)₃

(6)

2029/ (Set : B)

Rust is a mixture of :

- (A) Fe_2O_3
- (B) Fe_2O_3 & $Fe(OH)_3$
- (C) FeO & $Fe(OH)_3$
- (D) Fe_3O_4 & $Fe(OH)_3$

(vii) एक जीरो कोटि अभिक्रिया के 100% पूर्ण होने में समय लगता है :

1

- (A) $t_{100\%} = a / k$
- (B) $t_{100\%} = a \cdot k$
- (C) $t_{100\%} = a / 2k$
- (D) इनमें से कोई नहीं

Time required for 100% completion of a Zero order reaction is :

- (A) $t_{100\%} = a / k$
- (B) $t_{100\%} = a \cdot k$
- (C) $t_{100\%} = a / 2k$
- (D) None of these

(viii) भौतिक अधिशोषण के प्रतिकूल स्थिति निम्न में कौन नहीं है ?

1

- (A) उच्च दाब
- (B) $-\Delta H$
- (C) उच्च ताप
- (D) इनमें से कोई नहीं

Which of the following is **not** a favourable condition for physical adsorption ?

- (A) High pressure
- (B) $-\Delta H$
- (C) High temperature
- (D) None of the above

2029/ (Set : B)

(7)

2029/ (Set : B)

(ix) P_4 में कक्षक निर्माण के $p-p$ बन्ध में π -कैरेक्टर की प्रतिशतता है :

1

- (A) 25 (B) 33

- (C) 50 (D) 75

The percentage of π -character in the orbital forming $p-p$ bonds in P_4 is :

- (A) 25 (B) 33

- (C) 50 (D) 75

(x) एक 1° एल्काइल हेलाइड प्राथमिकता से दर्शाता है :

1

- (A) SN^2 (B) SN^1

- (C) विलोपन (D) इनमें से कोई नहीं

A 1° alkyl halide would prefer to undergo :

- (A) SN^2 (B) SN^1

- (C) Elimination (D) None of these

(xi) निम्न में कौन जल के साथ क्रिया करता है ?

1

- (A) $CHCl_3$ (B) $Cl_3C - CHO$

- (C) CCl_4 (D) $ClCH_2CH_2Cl$

Which of the following reacts with water ?

- (A) $CHCl_3$ (B) $Cl_3C - CHO$

- (C) CCl_4 (D) $ClCH_2CH_2Cl$

(8)

2029/ (Set : B)

(xii) एसिड एनहाइड्राइड 1° एमीन के साथ क्रिया करके बनाता है :

1

- (A) एमाइड (B) इमाइड
(C) इमाइन (D) इनमें से कोई नहीं

Acid anhydrides on reaction with 1° amine gives :

- (A) Amide (B) Imide
(C) Imine (D) None of these


2. क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं ? दो उदाहरण दीजिए। 2

What are crystalline solids ? Give ***two*** examples.

3. ठोसों की द्रवों में घुलनशीलता पर तापमान के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 2


Briefly explain the effects of temperature on the solubility of solids in liquids.

4. निम्न सेल क्रिया के लिए मानक EMF की गणना कीजिए,



$$E_{Zn/Zn^{++}}^{\circ} = 0.76 V; E_{Ag/Ag^+}^{\circ} = -0.80 V \quad 2$$

Calculate the standard EMF of a cell involving cell reaction



$$E_{Zn/Zn^{++}}^{\circ} = 0.76 V; E_{Ag/Ag^+}^{\circ} = -0.80 V .$$

2029/ (Set : B)

(9)

2029/ (Set : B)

5. अधिशोषण की परिभाषा दीजिए। एक उदाहरण दीजिए। 2

Define adsorption. Give **one** example.

6. एल्कोहल को फीनॉल से विभेद करने के **दो** परीक्षण के नाम बताइए। 2

Name any **two** tests to distinguish Alcohol from Phenol.

7. p-नाइट्रोफीनॉल, फीनॉल के मुकाबले अधिक अम्लीय है, क्यों ? 2

p-Nitrophenol is more acidic than phenol explain why ?

8. 1° एमीन के लिए कार्बाइल एमीन टेस्ट क्या है ? 2

What is carbylaminates test for 1° amine ?

9. निम्न पॉलीमर के एकक घटक लिखिए : 2

(i) ग्लिप्टल

(ii) नाइलॉन-6, 6

Write the monomers used for preparing following polymers :

(i) Glyptal

(ii) Nylon-6, 6

10. विटामिन क्या है ? किन्हीं **दो** विटामिन के नाम लिखिए। 2

What are vitamins ? Name any **two** vitamins.

2029/ (Set : B)

P. T. O.

(10)

2029/ (Set : B)

11. निम्न पदों को परिभाषित कीजिए :

3

- (i) सक्रियण ऊर्जा
- (ii) आण्वकता
- (iii) वेग स्थिरांक

Define the terms :

- (i) Activation Energy
- (ii) Molecularity
- (iii) Rate constant

12. खनिज तथा अयस्कों में अन्तर बताइए।

3

Differentiate between minerals and ores.

13. उदाहरण सहित कीलेट की परिभाषा दीजिए। कीलेट के महत्व लिखिए।

3

Define chelate with example. Write the importance of chelate.

14. SN^2 अभिक्रिया के मेकनिज्म की व्याख्या कीजिए।

3

Explain the mechanism of SN^2 reaction.

15. निम्न पदों की परिभाषा दीजिए :

3

- (i) बायोमॉलिक्यूल्स
- (ii) कार्बोहाइड्रेट

2029/ (Set : B)

(11)

2029/ (Set : B)

(iii) रिड्युसिंग शुगर

Define the terms :

- (i) Biomolecules
- (ii) Carbohydrates
- (iii) Reducing Sugars

16. (a) फॉस्फोरस के **तीन** ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए तथा उनकी संरचना बनाइए। 3

Name **three** oxy-acids of Phosphorus and draw their structures.

(b) ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार की व्याख्या कीजिए। 2

Discuss the anomalous behavior of oxygen.

अथवा

OR

(a) $K_2Cr_2O_7$ की निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए : 3

- (i) H_2SO_4
- (ii) KOH
- (iii) KI

Write the chemical reaction of $K_2Cr_2O_7$ with following :

- (i) H_2SO_4
- (ii) KOH
- (iii) KI

(12)

2029/ (Set : B)

- (b) क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है ? 2

What is chromyl chloride test ?

17. (a) $KMnO_4$ के साथ निम्न की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए : 3

- (i) KI (ii) H_2S
(iii) $FeSO_4$

Write the chemical reaction of $KMnO_4$ with :

- (i) KI (ii) H_2S
(iii) $FeSO_4$

- (b) MnO_4^- की संरचना बनाइए। 2

Draw the structure of MnO_4^- .

अथवा

OR

- (a) संक्रमण तत्वों के चुम्बकीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। 3

Explain the magnetic behavior of transition metals.

- (b) $Ni(28), Zn(30)$ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 2

Write the electronic configuration of $Ni(28), Zn(30)$.

18. (a) कीटोन को तैयार करने की **दो** विधियाँ, रासायनिक अभिक्रिया सहित लिखिए। 3



Give **two** methods of preparation of Ketones and write the chemical reactions.

2029/ (Set : B)



(13)

2029/ (Set : B)

- (b) निम्न के IUPAC नाम लिखिए : 2



Write the IUPAC names of the following :



अथवा

OR

- (a) कैनिजारो क्रिया क्या है ? इसका मेकनिज्म लिखिए। 3

What is Cannizaro's reaction ? Write its mechanism ?

- (b) कार्बोनिल ग्रुप की संरचना की व्याख्या कीजिए। 2

Discuss the structure of Carbonyl group.

